

**WORK PRODUCTIVITY AND ACTIVITY IMPAIRMENT QUESTIONNAIRE:
LEG OR FOOT PAIN V1.0 (WPAI:DNP)**

निम्नलिखित प्रश्नों में आपके टांग या पैर के दर्द के आपके काम करने और नियमित गतिविधियों को करने की योग्यता पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछा गया है। कृपया बताये संकेत के अनुसार खाली स्थानों को भरें या किसी संख्या पर गोल घेरा लगायें।

1. क्या आप वर्तमान में कोई नौकरी करते हैं (वेतन पर काम कर रहे हैं) _____ नहीं _____ हैं
अगर नहीं, तो “नहीं” पर निशान लगायें और प्रश्न 6 पर जायें।

अगले प्रश्न आज का दिन छोड़ कर, पिछले सात दिनों के बारे में हैं।

2. पिछले सात दिनों के दौरान, आप अपनी टांग या पैर के दर्द से जुड़ी समस्याओं के कारण कितने घंटे काम नहीं कर पाये? इनमें वे घंटे भी शामिल करें जिनमें आप अपनी टांग या पैर के दर्द के कारण काम पर नहीं गये, देरी से पहुँचे, जल्दी आ गये, आदि। इस अध्ययन में भाग लेने के कारण काम नहीं कर पाने वाले समय को शामिल नहीं करें।
_____ घंटे
3. पिछले सात दिनों के दौरान, आप अवकाश, छुट्टियों, इस अध्ययन में भाग लेने के लिये कार्य से ली गयी छुट्टी जैसे किसी अन्य कारण से कितने घंटे काम नहीं कर पाये?
_____ घंटे
4. पिछले सात दिनों के दौरान, आपने कितने घंटे वास्तव में काम किया?
_____ घंटे (अगर उत्तर “0” है, तो प्रश्न 6 पर जायें।)
5. पिछले सात दिनों के दौरान, काम करते हुए आपके टांग या पैर के दर्द के कारण आपकी उत्पादकता पर कितना असर पड़ा? उन दिनों के बारे में सोचें जिनमें आपकी सामर्थ्य की तुलना में आपके काम की मात्रा या उसका प्रकार सीमित रहा, जिन दिनों में आप उतना काम पूरा नहीं कर पाये जितना करना आप पसंद करते, या जिन दिनों में आप उतना ध्यानपूर्वक काम नहीं कर पाये जितना प्रायः आप करते हैं। अगर टांग या पैर के दर्द ने आपके काम को केवल थोड़ा सा ही प्रभावित किया, तो छोटी संख्या चुनें। अगर टांग या पैर के दर्द ने आपके काम को बहुत अधिक प्रभावित किया, तो बड़ी संख्या चुनें।

टांग या पैर के दर्द का मेरे काम पर कोई असर नहीं _____ टांग या पैर के दर्द ने मुझे काम करने से पूरी तरह से रोक दिया।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

किसी एक संख्या पर गोल घेरा लगायें

6. पिछले सात दिनों के दौरान, आपके टांग या पैर के दर्द ने, नौकरी के काम के अलावा, आपकी नियमित दैनिक गतिविधियों को करने की योग्यता को कितना प्रभावित किया? नियमित गतिविधियों से, हमारा मतलब है आपके द्वारा प्रायः की जाने वाली गतिविधियाँ, जैसे कि घर का काम करना, खरीददारी, बच्चे की देखभाल, कसरत करना, पढ़ाई करना, आदि। उन अवसरों के बारे में सोचें जिन पर आपकी गतिविधियों की संख्या या उनका प्रकार आपकी सामर्थ्य की तुलना में सीमित रहा और जिन अवसरों पर आप गतिविधियों को उतना पूरा नहीं कर पाये जितना आप पसंद करते। अगर टांग या पैर के दर्द ने आपकी गतिविधियों को केवल थोड़ा सा ही प्रभावित किया, तो छोटी संख्या चुनें। अगर टांग या पैर के दर्द ने आपकी गतिविधियों को बहुत अधिक प्रभावित किया, तो बड़ी संख्या चुनें।

टांग या पैर के दर्द का मेरी दैनिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। _____ टांग या पैर के दर्द ने मुझे अपनी दैनिक गतिविधियाँ करने से पूरी तरह से रोक दिया।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

किसी एक संख्या पर गोल घेरा लगायें